

Roll No.

Question Booklet Number

O. M. R. Serial No.

--	--	--	--	--	--	--	--

B. Sc. (Ag.) (Third Semester) EXAMINATION, 2021-22

(New Course)

AGRICULTURAL FINANCE AND COOPERATION

Paper Code				
Ag	3	0	0	4

Questions Booklet
Series

C

Time : 1:30 Hours]

[Maximum Marks : 100

Instructions to the Examinee :

1. Do not open the booklet unless you are asked to do so.
2. The booklet contains 60 questions. Examinee is required to answer any 50 questions in the OMR Answer-Sheet provided and not in the question booklet. If more than 50 questions are attempted by student, then the first attempted 50 questions will be considered for evaluation. All questions carry equal marks.
3. Examine the Booklet and the OMR Answer-Sheet very carefully before you proceed. Faulty question booklet due to missing or duplicate pages/questions or having any other discrepancy should be got immediately replaced.

परीक्षार्थियों के लिए निर्देश :

1. प्रश्न-पुस्तिका को तब तक न खोलें जब तक आपसे कहा न जाए।
2. प्रश्न-पुस्तिका में 60 प्रश्न हैं। परीक्षार्थी को किन्हीं 50 प्रश्नों को केवल दी गई OMR आन्सर-शीट पर ही हल करना है, प्रश्न-पुस्तिका पर नहीं। यदि छात्र द्वारा 50 से अधिक प्रश्नों को हल किया जाता है तो प्रारम्भिक हल किये हुए 50 उत्तरों को ही मूल्यांकन हेतु सम्मिलित किया जाएगा। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।
3. प्रश्नों के उत्तर अंकित करने से पूर्व प्रश्न-पुस्तिका तथा OMR आन्सर-शीट को सावधानीपूर्वक देख लें। दोषपूर्ण प्रश्न-पुस्तिका जिसमें कुछ भाग छपने से छूट गए हों या प्रश्न एक से अधिक बार छप गए हों या उसमें किसी अन्य प्रकार की कमी हो, तो उसे तुरन्त बदल लें।

(Remaining instructions on the last page)

(शेष निर्देश अन्तिम पृष्ठ पर)

(Only for Rough Work)

1. सूक्ष्म वित्त व्यवसाय के लाभार्थी हैं :

- (A) भूमिहीन मजदूर
- (B) सीमांत किसान
- (C) छोटे बाजारों के विक्रेता
- (D) उपर्युक्त सभी

2. सूक्ष्म वित्त संस्थान अन्य से किस सन्दर्भ में भिन्न होते हैं ?

- (A) ऋण भुगतान संरचना
- (B) उत्पाद की पेशकश
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

3. फार्म में छोटे परिवर्तन के कारण लाभदायकता में हुए परिवर्तन का विश्लेषण करने का सबसे शक्तिशाली यंत्र है :

- (A) शुद्ध सम्पत्ति विवरण
- (B) आंशिक बजट
- (C) नकद प्रवाह विवरण
- (D) आर्थिक चिट्ठा

1. Beneficiaries of micro finance business are :

- (A) Landless labour
- (B) Marginal farmers
- (C) Vendors in the small markets
- (D) All of the above

2. Micro finance institutions differ from one another in terms of :

- (A) Loan repayment structure
- (B) Product offering
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

3. One of the most powerful tools for analyzing the change in profitability due to a small change in the farm is :

- (A) Net worth statement
- (B) Partial budget
- (C) Cash flow statement
- (D) Balance sheet

- | | |
|---|--|
| <p>4. स्वीट विश्लेषण में 'ताकत' है :</p> <p>(A) बाह्य कारक</p> <p>(B) आन्तरिक कारक</p> <p>(C) (A) और (B) दोनों</p> <p>(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं</p> | <p>4. In SWOT analysis 'Strength' is :</p> <p>(A) External factors</p> <p>(B) Internal factors</p> <p>(C) Both (A) and (B)</p> <p>(D) None of the above</p> |
| <p>5. निम्नलिखित में से कौन आर. बी. आई. द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है ?</p> <p>(A) सी. आर. आर.</p> <p>(B) बैंक दर</p> <p>(C) आई. आर. आर.</p> <p>(D) रिवर्स रेपो रेट</p> | <p>5. Which of the following is not regulated by RBI ?</p> <p>(A) CRR</p> <p>(B) Bank Rate</p> <p>(C) IRR</p> <p>(D) Reverse Repo Rate</p> |
| <p>6. जमा बीमा निगम अस्तित्व में किस वर्ष आया ?</p> <p>(A) 1960</p> <p>(B) 1962</p> <p>(C) 1963</p> <p>(D) 1970</p> | <p>6. Deposit Insurance Corporation came into existence in the year :</p> <p>(A) 1960</p> <p>(B) 1962</p> <p>(C) 1963</p> <p>(D) 1970</p> |
| <p>7. प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत उपभोग ऋण दिया जा सकता है :</p> <p>(A) ग्रामीण कारीगरों को</p> <p>(B) छोटे व सीमांत किसानों को</p> <p>(C) भूमिहीन मजदूरों को</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> | <p>7. Consumption loan under priority sector can be granted to :</p> <p>(A) Rural artisans</p> <p>(B) Small/marginal farmers</p> <p>(C) Landless labours</p> <p>(D) All of the above</p> |

- | | |
|---|--|
| <p>8. व्यावसायिक बैंकों के प्रथम चरण के राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया जिनके पास जमायें थीं :</p> <p>(A) 200 करोड़ रुपये से अधिक</p> <p>(B) 50 करोड़ रुपये से अधिक</p> <p>(C) 100 करोड़ रुपये से अधिक</p> <p>(D) 500 करोड़ रुपये से अधिक</p> | <p>8. During first spell of nationalization of Commercial Banks, 14 Banks were nationalized having deposits :</p> <p>(A) More than ₹ 200 crores</p> <p>(B) More than ₹ 50 crores</p> <p>(C) More than ₹ 100 crores</p> <p>(D) More than ₹ 500 crores</p> |
| <p>9. भारत में केन्द्रीय बैंक का कर्तव्य कौन करता है ?</p> <p>(A) आर. बी. आई.</p> <p>(B) एस. बी. आई.</p> <p>(C) नाबार्ड</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी</p> | <p>9. Which bank performs the duties of Central Bank in India ?</p> <p>(A) RBI</p> <p>(B) SBI</p> <p>(C) NABARD</p> <p>(D) All of the above</p> |
| <p>10. भारत में कौन मौद्रिक नीति तैयार करता है ?</p> <p>(A) वित्त मंत्रालय</p> <p>(B) योजना आयोग</p> <p>(C) आर. बी. आई.</p> <p>(D) नाबार्ड</p> | <p>10. Who formulates the monetary policy in India ?</p> <p>(A) Finance Ministry</p> <p>(B) Planning Commission</p> <p>(C) RBI</p> <p>(D) NABARD</p> |

- | | |
|--|---|
| <p>11. निम्नलिखित में से कौन-सी एक किसान एजेंसी है ?</p> <p>(A) इफको</p> <p>(B) एफ. सी. आई.</p> <p>(C) कृषि सेवा केन्द्र</p> <p>(D) श्री राम फर्टिलाइजर्स</p> | <p>11. Which of the following is a farmers' agency ?</p> <p>(A) IFFCO</p> <p>(B) FCI</p> <p>(C) Agro-Service Centers</p> <p>(D) Sri Ram Fertilizers</p> |
| <p>12. भारत में सर्वप्रथम भूमि बंधक बैंक की स्थापना की गयी :</p> <p>(A) पंजाब में</p> <p>(B) उत्तर प्रदेश में</p> <p>(C) ओडिशा में</p> <p>(D) गुजरात में</p> | <p>12. In India, first LMB was established in :</p> <p>(A) Punjab</p> <p>(B) Uttar Pradesh</p> <p>(C) Odisha</p> <p>(D) Gujarat</p> |
| <p>13. बैंक दर नीति एक हिस्सा है :</p> <p>(A) राजकोषीय नीति का</p> <p>(B) मौद्रिक नीति का</p> <p>(C) व्यापार नीति का</p> <p>(D) उपर्युक्त सभी का</p> | <p>13. The bank rate policy is a component of :</p> <p>(A) Fiscal policy</p> <p>(B) Monetary policy</p> <p>(C) Trade policy</p> <p>(D) All of the above</p> |
| <p>14. भारत में कौन-सा सूक्ष्म वित्त का सर्वोच्च बैंक है ?</p> <p>(A) एस. बी. आई.</p> <p>(B) आई. डी. बी. आई.</p> <p>(C) एस. आई. डी. बी. आई.</p> <p>(D) नाबार्ड</p> | <p>14. Which is the apex bank for micro finance in India ?</p> <p>(A) SBI</p> <p>(B) IDBI</p> <p>(C) SIDBI</p> <p>(D) NABARD</p> |

- | | |
|---|---|
| 15. वर्तमान में विश्व बैंक के कितने देश सदस्य हैं ? | 15. Currently how many members are in the World Bank ? |
| (A) 168 | (A) 168 |
| (B) 179 | (B) 179 |
| (C) 190 | (C) 190 |
| (D) 199 | (D) 199 |
| 16. किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को ऋण दिया जाता है : | 16. Kisan credit card loan is advanced to farmer for : |
| (A) फसल उत्पादन के लिए | (A) Crop production |
| (B) पशुपालन के लिए | (B) Animal husbandry |
| (C) मछली पालन के लिए | (C) Fisheries |
| (D) उपर्युक्त सभी | (D) All of the above |
| 17. निम्नलिखित में से कौन-सा वित्तीय विवरण का मुख्य उद्देश्य है ? | 17. Which of the following is the main objective of a financial statement ? |
| (A) भुगतान करने की क्षमता जानने के लिए | (A) To know the solvency |
| (B) ऋण लेने की क्षमता जानने के लिए | (B) To know the debt capacity |
| (C) आय क्षमता जानने के लिए | (C) To know the earning capacity |
| (D) उपर्युक्त सभी | (D) All of the above |

18. वित्तीय विवरण में स्थायी सम्पत्ति को दिखाया जाता है :
- (A) बाजार कीमत पर
(B) लागत कीमत पर
(C) प्रतिस्थापन कीमत पर
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
18. In financial statements, the fixed assets are shown at :
- (A) Market price
(B) Cost price
(C) Replacement price
(D) None of the above
19. स्वीट विश्लेषण में 'अवसर' है :
- (A) बाह्य कारक
(B) आन्तरिक कारक
(C) (A) और (B) दोनों
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
19. In SWOT analysis 'Opportunity' is :
- (A) External factors
(B) Internal factors
(C) Both (A) and (B)
(D) None of the above
20. निम्नलिखित में से कौन-सी संस्था भारत में दीर्घकालीन साख उपलब्ध कराने वाली सर्वोच्च सहकारी संस्था है ?
- (A) पी. एल. डी. बी.
(B) एपकोबार्ड
(C) पी. ए. सी. एस.
(D) सी. एल. डी. बी.
20. Which of the following cooperative credit institutions functioning at apex level in India for disbursing LT loans ?
- (A) PLDB
(B) APCOBARD
(C) PACS
(D) CLDB

21. विश्व बैंक का कौन-सा संस्थान 'सॉफ्ट लोन विंडो' कहलाता है ?
- (A) आई. एफ. सी.
(B) आई. एम. एफ.
(C) आई. डी. एफ.
(D) आई. डी. ए.
21. Which institution is known as 'soft loan window' of the World Bank ?
- (A) IFC
(B) IMF
(C) IDB
(D) IDA
22. 'वित्तीय विवरण' शब्द के अन्तर्गत आता है :
- (A) लाभ एवं हानि विवरण
(B) आर्थिक चिट्ठा और लाभ एवं हानि विवरण
(C) आय विवरण पत्र
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
22. The term 'financial statement' covers :
- (A) Profit and loss statement
(B) Balance sheet and profit and loss statement
(C) Income statement
(D) None of the above
23. विश्व बैंक की स्थापना क्यों की गयी ?
- (A) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए
(B) द्वितीय विश्व युद्ध के समय बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए
(C) गैर-सदस्य देशों का भुगतान सन्तुलन सुधारने के लिए
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
23. Why was World Bank established ?
- (A) To promote the international trade
(B) To reconstruct the economies damaged during IIInd World War
(C) To improve the adverse balance of payment situation of the non-member countries
(D) None of the above

24. 1980 तक भारत सबसे बड़ा लाभार्थी रहा :

- (A) आई. एम. एफ. ऋण का
- (B) आई. बी. आर. डी. ऋण का
- (C) आई. एफ. सी. ऋण का
- (D) आई. डी. ए. ऋण का

25. कृषि वित्त निगम प्रवर्तित किया गया :

- (A) भारतीय बैंक संघ द्वारा
- (B) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा
- (C) नाबार्ड द्वारा
- (D) राज्य सरकार द्वारा

26. निम्नलिखित में से कौन-सी समिति ने भारतीय सामान्य बीमा कम्पनी स्थापित करने की अनुशंसा की ?

- (A) डी. आर. गाडगिल
- (B) ए. डी. गोरवाला
- (C) मोहन कान्डा
- (D) वी. एम. दण्डेकर

24. India has been the largest beneficiary till 1980 of :

- (A) IMF loan
- (B) IBRD loan
- (C) IFC loan
- (D) IDA loan

25. Agricultural Finance Corporation was promoted by :

- (A) Indian Banks Association
- (B) Reserve Bank of India
- (C) NABARD
- (D) State Government

26. Which of the following committees recommended the establishment of General Insurance Company in India ?

- (A) D. R. Gadgil
- (B) A. D. Gorwala
- (C) Mohan Kanda
- (D) V. M. Dandekar

27. निम्नलिखित में से कौन-सा आर्थिक चिट्ठा का हिस्सा नहीं है ?
- (A) कैश आउटफ्लो
(B) तत्कालिक सम्पत्ति
(C) शुद्ध सम्पत्ति
(D) दीर्घकालीन देयतायें
28. निम्नलिखित में से कौन-से अनुपात की आर्थिक चिट्ठा से गणना नहीं कर सकते ?
- (A) त्वरित अनुपात
(B) चालू अनुपात
(C) पूँजी टर्नओवर अनुपात
(D) (A) और (B) दोनों
29. आई. बी. आर. डी. को इस नाम से भी जाना जाता है :
- (A) विश्व व्यापार संगठन
(B) एशियाई विकास बैंक
(C) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष
(D) विश्व बैंक
30. सहकारी समिति बुनियादी संस्था है :
- (A) ग्रामीणों के राजनीतिक विकास के लिए
(B) ग्रामीणों के सामाजिक विकास के लिए
(C) ग्रामीणों के सांस्कृतिक विकास के लिए
(D) ग्रामीणों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए
27. Which of the following is not a component of Balance Sheet ?
- (A) Cash Outflows
(B) Current Assets
(C) Net Worth
(D) Long-term Liabilities
28. Which of the following ratios cannot be computed from Balance Sheet ?
- (A) Quick Ratio
(B) Current Ratio
(C) Capital Turnover Ratio
(D) Both (A) and (B)
29. IBRD is also known as :
- (A) World Trade Organisation
(B) Asian Development Bank
(C) International Monetary Fund
(D) World Bank
30. Cooperative society is a basic institution :
- (A) For political growth of the villagers
(B) For social growth of the villagers
(C) For cultural growth of the villagers
(D) For socio-economic growth of the villagers

31. निम्नलिखित में से कौन-सा साख का प्रथम 'आर' है ?
- (A) प्रतिफल
(B) अदायगी
(C) विनिवेश से प्राप्त प्रतिफल
(D) जोखिम वहन करने की क्षमता
32. इलाहाबाद बैंक का राष्ट्रीकरण किस वर्ष हुआ ?
- (A) 1980
(B) 1969
(C) 1982
(D) 1975
33. निम्नलिखित में से किस बैंक का कैनारा बैंक में विलय किया गया ?
- (A) इलाहाबाद बैंक
(B) सिंडिकेट बैंक
(C) देना बैंक
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
34. निम्नलिखित में से कौन-सा साख का द्वितीय 'सी' है ?
- (A) चरित्र
(B) पूँजी
(C) क्षमता
(D) शर्तें
31. Which of the following is the first 'R' of credit ?
- (A) Return
(B) Repayment
(C) Return from the investment
(D) Risk bearing ability
32. Allahabad Bank was nationalized in the year :
- (A) 1980
(B) 1969
(C) 1982
(D) 1975
33. Which of the following banks was merged in Canara Bank ?
- (A) Allahabad Bank
(B) Syndicate Bank
(C) Dena Bank
(D) None of the above
34. Which of the following is the second 'C' of credit ?
- (A) Character
(B) Capital
(C) Capacity
(D) Conditions

35. एशियाई विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई ?
- (A) 1962
(B) 1965
(C) 1966
(D) 1969
36. निम्नलिखित में से कौन-सा ऋण भूमि विकास बैंक द्वारा दिया जाता है ?
- (A) अल्पकालीन ऋण
(B) दीर्घकालीन ऋण
(C) फसल ऋण
(D) उपर्युक्त सभी
37. आई. सी. ए. का मुख्यालय स्थित है :
- (A) दिल्ली में
(B) जेनेवा में
(C) लंदन में
(D) वियना में
38. अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की घोषणा की गयी :
- (A) आई. सी. ए. द्वारा
(B) यू. एन. ओ. द्वारा
(C) आई. एल. ओ. द्वारा
(D) एन. सी. यू. आई. द्वारा
35. Asian Development Bank was established in the year :
- (A) 1962
(B) 1965
(C) 1966
(D) 1969
36. Which of the following loans is advanced by Land Development Bank ?
- (A) Short-term loan
(B) Long-term loan
(C) Crop loan
(D) All of the above
37. Headquarters of ICA is situated at :
- (A) Delhi
(B) Geneva
(C) London
(D) Vienna
38. International Day of Cooperatives was declared by :
- (A) ICA
(B) UNO
(C) ILO
(D) NCUI

39. शुद्ध सम्पत्ति विवरण में सम्पत्ति को रखा जाता है :
- (A) बायें पक्ष में
(B) दायें पक्ष में
(C) मध्य में
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
39. In net worth statement assets are on :
- (A) Left side
(B) Right side
(C) Middle
(D) None of the above
40. अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण साख के लिए सर्वोच्च पुनर्वित्त संस्था है :
- (A) आर. बी. आई.
(B) नाबार्ड
(C) आर. आर. बी.
(D) एस. बी. आई.
40. An apex institution at All India level in the field of rural credit is :
- (A) RBI
(B) NABARD
(C) RRB
(D) SBI
41. कृषि ऋण अधिनियम कब अस्तित्व में आया ?
- (A) 1881
(B) 1882
(C) 1883
(D) 1884
41. Agriculture Loan Act came into existence in the year :
- (A) 1881
(B) 1882
(C) 1883
(D) 1884
42. भूमि सुधार ऋण अधिनियम कब अस्तित्व में आया ?
- (A) 1881
(B) 1882
(C) 1884
(D) 1883
42. Land Improvement Loan Act came into existence in the year :
- (A) 1881
(B) 1882
(C) 1884
(D) 1883

43. ब्रिटिश शासन में सरकार द्वारा दिया जाने वाला ऋण कहलाता है :
- (A) अप्रत्यक्ष ऋण
(B) राजनीतिक ऋण
(C) तकावी ऋण
(D) स्वतः निस्तारण ऋण
43. Loans granted by the government during British rule are called :
- (A) Indirect loans
(B) Political loans
(C) Taccavi loans
(D) Self liquidating loans
44. ऋण प्रस्ताव की आर्थिक संभाव्यता की गणना करते समय ऋण को वर्गीकृत किया जाता है :
- (A) एस. एल. एल. और पी. एल. एल. ऋण
(B) एस. टी. और एम. टी. ऋण
(C) प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ऋण
(D) उपर्युक्त सभी
44. To calculate the economic feasibility of loan proposal, the loans are categorized as :
- (A) SLL and PLL loans
(B) ST and MT loans
(C) Direct and indirect loans
(D) All of the above
45. निम्नलिखित में से किसे 'दो धारी' चाकू कहा जाता है ?
- (A) ऋण
(B) ब्याज
(C) साख की लागत
(D) उपर्युक्त सभी
45. Which of the following is quoted as 'Double-edged' knife ?
- (A) Credit
(B) Interest
(C) Cost of credit
(D) All of the above

46. प्राथमिकता क्षेत्र से आप क्या समझते हैं ?

- (A) गतिविधियों का एक समूह जिसे प्राथमिकता से वित्तपोषित किया जाता है।
- (B) ऋण लेने वालों का एक समूह, जिससे प्राथमिकता के आधार पर ऋण वसूली की जानी है।
- (C) व्यक्तियों का एक समूह, जिनका प्राथमिकता से खाता खोला जाना है।
- (D) उपर्युक्त सभी

47. एन. सी. डी. सी. की स्थापना हुई :

- (A) 1961 में
- (B) 1962 में
- (C) 1960 में
- (D) 1963 में

48. 'नाफेड' का मुख्यालय स्थित है :

- (A) मुम्बई में
- (B) नई दिल्ली में
- (C) कोलकाता में
- (D) नागपुर में

46. What do you mean by priority sector ?

- (A) A group of activities which are to be financed on the priority.
- (B) A group of borrowers, from whom, recovery to be made on priority basis.
- (C) A group of peoples, whose accounts to be opened on priority.
- (D) All of the above

47. NCDC was established in the year :

- (A) 1961
- (B) 1962
- (C) 1960
- (D) 1963

48. The headquarters of NAFED is located in :

- (A) Mumbai
- (B) New Delhi
- (C) Kolkata
- (D) Nagpur

49. भारत में सहकारी साख समिति की संरचना है :

- (A) दोस्तरीय
- (B) तीनस्तरीय
- (C) (A) और (B) दोनों
- (D) उपर्युक्त में से कोई नहीं

50. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई ?

- (A) 1972
- (B) 1975
- (C) 1978
- (D) 1979

51. भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारिता संघ मर्यादित स्थित है :

- (A) जयपुर में
- (B) लखनऊ में
- (C) मुम्बई में
- (D) नई दिल्ली में

52. एन. सी. सी. एफ. की स्थापना की गयी :

- (A) 1961 में
- (B) 1963 में
- (C) 1964 में
- (D) 1965 में

49. The structure of Cooperative Credit Society in India is :

- (A) Two-tier
- (B) Three-tier
- (C) Both (A) and (B)
- (D) None of the above

50. Regional Rural Bank was established in the year :

- (A) 1972
- (B) 1975
- (C) 1978
- (D) 1979

51. National Cooperative Consumers Federation of India Limited is situated at :

- (A) Jaipur
- (B) Lucknow
- (C) Mumbai
- (D) New Delhi

52. NCCF was established in the year :

- (A) 1961
- (B) 1963
- (C) 1964
- (D) 1965

53. अग्रणी बैंक है एक :
- (A) आर. आर. बी.
(B) सहकारी बैंक
(C) व्यावसायिक बैंक
(D) बीमा कम्पनी
54. ग्राम अंगीकार योजना पर पहली बार विचार किया गया था :
- (A) एस. बी. आई. द्वारा
(B) आर. आर. बी. द्वारा
(C) एस. सी. बी. द्वारा
(D) पी. एन. बी. द्वारा
55. जिला सलाहकार समिति में संयोजक होता है :
- (A) जिला अधिकारी
(B) अग्रणी बैंक अधिकारी
(C) कृषि अधिकारी
(D) क्षेत्र अधिकारी
56. आर. आर. बी. की शेयर पूँजी में राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा प्रवर्तक बैंक के योगदान का अनुपात है :
- (A) 15 : 50 : 35
(B) 50 : 15 : 35
(C) 50 : 35 : 15
(D) 15 : 35 : 50
53. A lead bank is a :
- (A) RRB
(B) Cooperative bank
(C) Commercial bank
(D) Insurance company
54. Village Adoption Scheme was first conceived by :
- (A) SBI
(B) RRB
(C) SCB
(D) PNB
55. In District Consultative Committee, convenor is :
- (A) District Magistrate
(B) Lead bank officer
(C) Agriculture officer
(D) Field officer
56. RRB's share capital is being subscribed by the state government, central government and sponsoring bank in the ratio of :
- (A) 15 : 50 : 35
(B) 50 : 15 : 35
(C) 50 : 35 : 15
(D) 15 : 35 : 50

57. निम्नलिखित में से कौन-सी एक उच्चतर वित्तीय संस्था नहीं है ?
- (A) आई. बी. आर. डी.
(B) आर. बी. आई.
(C) आर. आर. बी.
(D) नाबार्ड
58. भारत का प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है :
- (A) इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
(B) अवध ग्रामीण बैंक
(C) आर्यावर्त ग्रामीण बैंक
(D) प्रथमा बैंक
59. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रायोजित किया जाता है :
- (A) सार्वजनिक बैंक द्वारा
(B) निजी बैंक द्वारा
(C) सहकारी बैंक द्वारा
(D) उपर्युक्त में से कोई नहीं
60. 'ए. आई. आर. सी. आर. सी.' के अध्यक्ष हैं :
- (A) पी. डी. ओझा
(B) बी. वेंकटापेयाह
(C) ए. डी. गोरवाला
(D) बी. के. हजारे
57. Which of the following is not a higher financing agency ?
- (A) IBRD
(B) RBI
(C) RRB
(D) NABARD
58. First RRB of India is :
- (A) Allahabad Regional Rural Bank
(B) Awadh Gramin Bank
(C) Aryawart Gramin Bank
(D) Prathama Bank
59. RRB is sponsored by :
- (A) Public Sector Bank
(B) Private Bank
(C) Cooperative Bank
(D) None of the above
60. Chairman of 'AIRCRC' is :
- (A) P. D. Ojha
(B) B. Venkatappaiah
(C) A. D. Gorwala
(D) B. K. Hazare

4. Four alternative answers are mentioned for each question as—A, B, C & D in the booklet. The candidate has to choose the most correct/appropriate answer and mark the same in the OMR Answer-Sheet as per the direction :

Example :

Question :

Q. 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

Q. 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

Q. 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

Illegible answers with cutting and over-writing or half filled circle will be cancelled.

5. Each question carries equal marks. Marks will be awarded according to the number of correct answers you have.
6. All answers are to be given on OMR Answer sheet only. Answers given anywhere other than the place specified in the answer sheet will not be considered valid.
7. Before writing anything on the OMR Answer Sheet, all the instructions given in it should be read carefully.
8. After the completion of the examination candidates should leave the examination hall only after providing their OMR Answer Sheet to the invigilator. Candidate can carry their Question Booklet.
9. There will be no negative marking.
10. Rough work, if any, should be done on the blank pages provided for the purpose in the booklet.
11. To bring and use of log-book, calculator, pager and cellular phone in examination hall is prohibited.
12. In case of any difference found in English and Hindi version of the question, the English version of the question will be held authentic.

Impt. : On opening the question booklet, first check that all the pages of the question booklet are printed properly. If there is any discrepancy in the question Booklet, then after showing it to the invigilator, get another question Booklet of the same series.

4. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार सम्भावित उत्तर—A, B, C एवं D हैं। परीक्षार्थी को उन चारों विकल्पों में से एक सबसे सही अथवा सबसे उपयुक्त उत्तर छोटना है। उत्तर को OMR आन्सर-शीट में सम्बन्धित प्रश्न संख्या में निम्न प्रकार भरना है :

उदाहरण :

प्रश्न :

प्रश्न 1 (A) ☒ (B) (C) (D)

प्रश्न 2 (A) (B) ☒ (C) (D)

प्रश्न 3 (A) ☒ (B) (C) (D)

अपठनीय उत्तर या ऐसे उत्तर जिन्हें काटा या बदला गया है, या गोले में आधा भरकर दिया गया, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा।

5. प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं। आपके जितने उत्तर सही होंगे, उन्हीं के अनुसार अंक प्रदान किये जायेंगे।
6. सभी उत्तर केवल ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर ही दिये जाने हैं। उत्तर-पत्रक में निर्धारित स्थान के अलावा अन्यत्र कहीं पर दिया गया उत्तर मान्य नहीं होगा।
7. ओ. एम. आर. उत्तर-पत्रक (OMR Answer Sheet) पर कुछ भी लिखने से पूर्व उसमें दिये गये सभी अनुदेशों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया जाये।
8. परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परीक्षार्थी कक्ष निरीक्षक को अपनी OMR Answer Sheet उपलब्ध कराने के बाद ही परीक्षा कक्ष से प्रस्थान करें। परीक्षार्थी अपने साथ प्रश्न-पुस्तिका ले जा सकते हैं।
9. निगेटिव मार्किंग नहीं है।
10. कोई भी रफ कार्य, प्रश्न-पुस्तिका के अन्त में, रफ-कार्य के लिए दिए खाली पेज पर ही किया जाना चाहिए।
11. परीक्षा-कक्ष में लॉग-बुक, कैलकुलेटर, पेजर तथा सेल्युलर फोन ले जाना तथा उसका उपयोग करना वर्जित है।
12. प्रश्न के हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण में भिन्नता होने की दशा में प्रश्न का अंग्रेजी रूपान्तरण ही मान्य होगा।

महत्वपूर्ण : प्रश्नपुस्तिका खोलने पर प्रथमतः जाँच कर देख लें कि प्रश्न-पुस्तिका के सभी पृष्ठ भलीभाँति छपे हुए हैं। यदि प्रश्नपुस्तिका में कोई कमी हो, तो कक्षनिरीक्षक को दिखाकर उसी सिरीज की दूसरी प्रश्न-पुस्तिका प्राप्त कर लें।